

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी को दुबारा खोलने और बहाली की योजनाओं के बारे में, सिटी ने समुदाय से सुझाव मांगे

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (12 मई, 2020) – मेयर के रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप (Reopening and Recovery Working Group) ने यह सुनिश्चित करने के लिए समुदाय को शामिल करना शुरू किया है कि सिटी को दुबारा खोलने की योजना, जनता और स्टाफ की सेवा और सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करती है।

इसमें, विशेष उपयोगकर्ता समूहों, कारोबारियों और सामुदायिक समूहों के साथ कई प्रकार के परामर्श शामिल होंगे। 13 मई को, इस प्रकार का पहला परामर्श, स्पोर्ट्स समूहों के साथ आयोजित किया जाएगा।

ब्रैम्पटन के समुदाय को भी, नए शुरू किए रीओपनिंग एंड रिकवरी सर्वेक्षण, जो [यहां ऑनलाइन उपलब्ध है \(available online here\)](#) में हिस्सा लेकर या [covid19reopencity@brampton.ca](mailto:covid19reopencity@brampton.ca) पर ईमेल द्वारा जुड़कर, अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

रीजनल काउंसलर मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros) के नेतृत्व में और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) की सलाह से, वर्किंग ग्रुप, सिटी की फैसिलिटीज को सुरक्षित और सोचे-समझे तरीके से दुबारा खोलने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह ग्रुप, चरणबद्ध तरीके से दुबारा शुरुआत के दौरान खास COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) टास्क फोर्सिज का मार्गदर्शन करने के लिए प्रक्रियाओं के बारे में सलाह देगा, ताकि निवासियों, कारोबारियों और कर्मचारियों को आवश्यक सहायता मिलती रहे।

COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) को फैलने से रोकने में, सिटी के प्रयासों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/COVID19](http://www.brampton.ca/COVID19) पर जाएं।

### हवाले

“हम सिटी को संभावित तौर पर दुबारा खोलने और बहाली के लिए, हमारे साझेदारों के निकट तालमेल और प्रांत व पील पब्लिक हेल्थ की सलाह के आधार पर, अपनी योजनाएं विकसित कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य, ऐसी तालमेल वाली प्रतिक्रिया स्थापित करना है, जिससे COVID-19 को फैलने से रोकने की पहले वाली गति कायम रह सके। मैं हमारे समुदाय की मेहनत और प्रतिबद्धता के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मैं उनसे इसी प्रकार से सहयोग जारी रखने की मांग करता हूं क्योंकि हम लगातार इस स्थिति से निपट रहे हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी को धीरे-धीरे दुबारा खोलने और बहाली के लिए सुरक्षित और सोची-समझी योजना लागू करने पर अच्छी तरह से काम हो रहा है। इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए, हम समुदाय के लगातार सहयोग और सुझावों पर निर्भर हैं। मैं सिटी के स्टेकहोल्डर्स के साथ, अर्थपूर्ण

विचारविमर्श करने के लिए उत्साहित हूँ, जो हमारी योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और व्यापक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करेंगे।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; लीड, मेयर का रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप*

“COVID-19 के शुरू होने के बाद, सिटी ने अपनी सेवा और प्रोग्राम डिलीवरी में खास तौर पर बदलाव किए थे। सिटी को संभावित तौर पर दुबारा खोलने और कामों को दुबारा शुरू करने पर विचार करते हुए, हमारा ध्यान पहले की तरह एक ही बात पर केंद्रित है – हमारे समुदाय की सलामती। हमारा उद्देश्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, निवासियों और सिटी के सभी स्टैकहोल्डर्स की जरूरतों में, सावधानी से संतुलन कायम करना है।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)